



पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

Power Grid Corporation of India Limited

सूचना का अधिकार अभिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005

केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लॉट नं.2, सेक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122001

Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122001

CIN : L40101DL1989GOI038121



दिनांक: 9 June, 2023

PGCIL/R/E/23/00178

Shri Ritu Raj,

Room no.56, Building no.526, Type IIIB, RCF colony, Chembur, Maharashtra-400074

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी ।

महोदय / महोदया,

कृपया आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 26 May, 2023 को प्राप्त अपने आर.टी.आई. अनुरोध का संदर्भ लें ।

उपरोक्त पत्र में वांछित जानकारी अनुलग्नक-1 में संलग्न है ।

यदि आप केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट न हों तो, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर पहले अपील प्राधिकारी के सम्मुख अपील की जा सकती है। आर.टी.आई अधिनियम, 2005 के तहत केंद्रीय कार्यालय, गुडगांव में अपील प्राधिकारी का विवरण निम्नानुसार है:

श्री बी.अनंत शर्मा

कार्यपालक निदेशक (केंद्रीय आयोजना एवं सी. एस.) एवं अपील प्राधिकारी

केंद्रीय कार्यालय, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,

सौदामिनी, प्लॉट नंबर-2, सेक्टर-29, गुडगांव-122001, हरियाणा।

ईमेल आईडी: appellate.cc@powergrid.co.in

फोन नंबर: 0124-2571994

धन्यवाद,

भवदीय,
E. Jagannath Rao
09/06/23

(ए. जगन्नाथ राव)

मुख्य महाप्रबंधक (केंद्रीय आयोजना) एवं
केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी

Email ID: cpio.cc@powergrid.co.in

Sub: Reply to RTI Request of Shri Ritu Raj, Chembur, Maharashtra

| Sl. No. | Information sought: | Reply: |
|---------|--|---|
| 1. | Is there provision of maximum 30 days of special casual leave in a year for participating in mountaineering or trekking expedition at National Level approved by Indian Mountaineering Foundation or Youth Hostel Association of India | <p>Reply to Sl.No 1, 2 & 3:</p> <p>The Relevant Clause of POWERGRID Leave Rules is mentioned below for reference:</p> <p>7.2 Special Casual Leave not exceeding 30 days in a calendar year may be granted:</p> <p>a) to employees selected to represent the Company in tournaments recognised by the State/National Association for the game concerned.</p> <p>b) to employees selected to represent the District or the State or All India in a recognised tournament.</p> <p>c) to employees selected to participate in training/coaching camps by State Associations.</p> <p>d) to employees required to act as Umpires in tournaments of National/International importance.</p> <p>e) to employees who wish to attend in their individual capacity meetings/training courses organised by professional institutes of which they are members.</p> <p>f) to employees selected to participate in local tournament on behalf of POWERGRID.</p> <p>g) to employees participating in mountaineering and trekking arranged by recognised clubs/associations.</p> <p>While sanctioning Special Casual Leave under (f) & (g) within the limits specified, the periods of absence for attending pre-selection trials/camps connected with sporting events of National/International importance will be included. If the period exceeds 30 days in any calendar year, the employees can be permitted by the competent authority to combine Special Casual Leave with Earned Leave as a special case, but not with Casual Leave.</p> |
| 2. | If there is provision of Special Casual leave does participating executive must be sponsored by state sports body as a member of the state team | |
| 3. | What is process of regularizing such special casual leaves in your organisation in line with DOPT circular OM No 27 4 68 EsttB dated 6th September 1969 and OM No 28016 2 84 Estt A dated 11 4 1985 | |
| 4. | Is there any trekking organisation in your company to look over or monitor trekking activities. | No |

A. D. C.
09/06/2023